

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक-01.06.2022

12 घंटे के अन्दर स्वाट टीम एवं थाना डिबाई पुलिस द्वारा 06 वर्षीय अपहृत बच्चा सादान सकुशल बरामद, 04

अपहरणकर्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2022 को शहजाद पुत्र अली कुर्रहमान निवासी गोधना थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर द्वारा थाना डिबाई पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसका 06 वर्षीय बच्चा सादान अपने तीन साथियों/बच्चों के साथ पास के गांव कसेर से बिल्ली का बच्चा लेने गया था तथा वापस गांव की तरफ आते समय अपाची मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति उसके बच्चे को बाइक पर बैठा कर ल गये हैं जिसको काफी तलाश किया परन्तु नहीं मिल सका। इस संबंध में तत्काल थाना डिबाई पर मुअसं-265/2022 धारा 364 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री श्लोक कुमार द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिबाई पुलिस एवं स्वाट टीम सहित 04 टीम गठित कर लगाया गया था।

गठित पुलिस टीमों द्वारा बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु घटना स्थल से जाने वाले संभावित रस्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया गया जिसमें दो लडके सफेद अपाची बाइक पर घटना स्थल की तरफ घटना से पहले आते हुए दिखायी दिये व घटना के बाद मोटर साइकिल पर बच्चे को बैठाकर ले जाते हुए दिखायी दिये। अभियुक्तगणों के जाने वाले सम्भावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरो का भी निरीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्तों द्वारा बच्चे का अपहरण कर ले जाने की पुष्टि हुई तथा अभियुक्तगणों के जाने के रास्ते का पता चला। प्राप्त वीडियो/फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल बैठे अभियुक्तों की पहचान करायी गयी तो इनकी पहचान जन सामान्य के लोगों एवं गांव के लोगों द्वारा मौ0 रिहान व मौ0 अरमान के रूप में की गयी। घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय द्वारा 25,000-25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। विवेचना/कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अपहृत बच्चे के गांव निवासी अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू व मौ0 रिहान पुत्र राहत अली निवासी नेहरू चौराहा थाना गुन्नौर जनपद संभल, शाहिद पुत्र इब्नेहसन व मुसब्बिर पुत्र अजर अली निवासीगण बूगाजीत नगलिया थाना जरीफनगर जनपद बदायूं को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की तथा उनके कब्जे से अपहृत बच्चा सादान सकुशल बरामद किया गया।

घटना का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह अपहृत बच्चे के पिता शहजाद के साथ केरल में कपडा/चादर बैचने का कार्य करता था तथा उसके द्वारा शहजाद से 01 लाख रुपये उधार लिये गये थे। शहजाद लगातार सिराजुद्दीन से अपने पैसों की मांग कर रहा था। इसलिए सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू द्वारा मौ0 रिहान अरमान व शाहिद के साथ मिलकर शहजाद के लडके सादान का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनायी गयी। योजनानुसार अभियुक्त मौ0 रिहान व अरमान द्वारा बच्चे का अपहरण करने के पश्चात बच्चे को अभियुक्त मुसब्बिर जो पुराना अपराधी हैं, के सुपुर्द किया गया। अभियुक्त मुसब्बिर द्वारा बच्चे को अपने घर पर छुपाकर रखा था जहां से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। शेष अभियुक्त अरमान की भी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू निवासी ग्राम गोधना थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मौ0 रिहान पुत्र राहत अली निवासी नेहरू चौराहा थाना गुन्नौर जनपद संभल।
3. शाहिद पुत्र इब्नेहसन निवासी बूगाजीत नगलिया थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।
4. मुसब्बिर पुत्र अजर अली निवासी उपरोक्त।

अभियुक्त मुसब्बिर का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-267/2007 धारा 323,324,325,524,506 भादवि थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।
2. मुअसं-709/13 धारा 363 भादवि थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।
3. मुअसं-372/16 धारा 323,324,325,524,506 भादवि थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।
4. मुअसं-265/2022 धारा 364 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-557/17 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ महोदय द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बच्चे की सकुशल बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 50 हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्वाट टीम-

1. श्री दिनेश सिंह प्रभारी स्वाट टीम
3. उ0नि0 अनुराग भदौरिया, है0का0 मनोज दीक्षित, है0का0 जितेन्द्र यादव, है0का0 विकास कुमार, है0का0 हरेन्द्र पुनिया, है0का0 आशीष कुमार, का0 वसीम, का0 कपिल नैन, का0 नीरज त्यागी, का0 प्रबलि तोमर, का0 विशाल चौहान, का0 राहुल कुमार, का0 अक्षय त्यागी, का0 अमन यादव, है0का0चालक जितेन्द्र त्यागी, है0का0चालक मणिकान्त त्यागी।

थाना डिबाई पुलिस टीम-

1. श्री सुभाष सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ0नि0 विमल कुमार, उ0नि0 विक्रम, उ0नि0 संदीप, उ0नि0 रामगोपाल, उ0नि0 नदीम
3. का0 राजेन्द्र सिंह, का0 आशु धामा, का0 सुखविन्द्र, का0 दीपक पुंडीर, का0 शिवम, का0 मनोज कौशिक,

स्वाट टीम ग्रामीण-

1. है0का0 मनीष त्यागी, का0 नितिन शर्मा, का0 आकाश कुमार, का0 आकाश नेहरा, का0 ओम प्रकाश।